



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 1978/अग्रहायण 27, 1900
No. 361] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 18, 1978/AGRAHAYANA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

सीमाशुल्क

सा. का. नि. 581 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 205-सी. शु. (सा. का. नि. सं. 524 (अ.) तारीख 1 नवम्बर, 1978 द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 192-सी. शु. (सा. का. नि. सं. 485 (अ.), तारीख 1 अक्टूबर, 1978 में, निम्नलिखित और संशोधन करती हैं,

अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 1 और उससे सम्बंध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

(1)	(2)	(3)
1	आस्ट्रिया के शिलिंग	167

[सं. 235-सी. श./फा. सं. 503/6/78-सी. श.-6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 581(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 192-Cus. (G.S.R. No. 485(E) dated the 1st October, 1978 as amended by Notification No. 205-CUS (G.S.R. No. 524(E) dated 1-11-1978, namely :—

In the Schedule below the said notification, for Serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
1	Austrian Schillings	167

[No. 235-CUS./F. No. 503/6/78-CUS. VI]

A. BORDIA, Under Secy.